



फर्जी आईडी से ले रहे थे वीआईपी नम्बर के सिम

कानपुर। फर्जी आईडी से वीआईपी मोबाइल नंबर हासिल करने वाले दो अभियुक्तों को थाना फीलखाना पुलिस ने दबोच लिया है। अभियुक्तों के पास कई फर्जी आईडी और सिम बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक माल रोड स्थित **BSNL** ऑफिस में फर्जी आईडी लगाकर वीवीआईपी मोबाइल नंबर को स्वैप कराकर निर्गत कराने के सम्बन्ध में वादी इंद्रेश (**BSNL** कर्मचारी) द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना फीलखाना कानपुर नगर से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को मय फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के पास से कई सिम हरियाणा पुलिस की गुमशुदगी सम्बन्धी आख्या प्रपत्र फर्जी आधार कार्ड फर्जी निर्वाचन आयोग के प्रपत्र विभिन्न कम्पनियों के फर्जी अथोरिटी प्रपत्र आदि बरामद किए गए। अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वीवीआईपी नम्बर के विषय में किसी भी कार्यालय में **BSNL** कर्मियों को झांसा देकर कर्मियों के फर्जी अथोरिटी लेटर लगाकर नाम ज्ञात कर मोबाइल के गुमशुदा होने की पुलिस की फर्जी आईडी व फर्जी आधार कार्ड लगाकर किसी अन्य **BSNL** कार्यालय से वहाँ के कर्मियों को झांसा देकर सिम निर्गत करा लेते थे। तथा उन सिम कार्ड को तुरन्त किसी अन्य सही आईडी पर अन्य मोबाइल प्रदाता कम्पनी में पोर्ट करा लेते थे तथा महंगे दामों में विक्रय कर देते थे। अभियुक्तगणों को गुरुवार को बाल भवन से झाड़ी बाबा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः

1. मोहित सैनी पुत्र नरेश कुमा न0- 215/03 मोहल्ला सलाम पुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगण हरियाणा
2. अनिल कुमार सैनी पुत्र देवेन्द्र कुमार नि0- मकान न0-स 373 बडा वाल सैनी की ढाणी वार्ड न0- 10 तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगण हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- उ0नि0 प्रभाशंकर सिंह, का0 अमित सोलंकी, भूपेन्द्र कुमार, उ0नि0 विवेक शर्मा, का0 अजीत

बरामदगी का विवरण-

1. 04 अदद मोबाइल भिन्न-भिन्न कम्पनी (3 मल्टीमीडिया फोन व 01 कीपैड फोन), 02 डेबिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक व इंडियन बैंक, 06 सिम **BSNL** व एक सिम आइडिया, 06 आईडी कार्ड, 01 रेलपास, 02 पैनकार्ड, प्रपत्रों की छायाप्रति -26-वर्क, 03 पासपोर्ट साइज फोटो